



KEI Industries Limited

Registered and Corporate Office: D-90, Okhla Industrial Area, Phase-1, New Delhi- 110020 CIN: L74899DL1992PLC051527 Tel.: +91-11-26818840/8642/0242, Email: info@kei-ind.com Website: www.kei-ind.com

KEI/BSE/2025-26 Date: 23.07.2025

The Manager, Listing Operation, **BSE Limited,** 25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai- 400 001

Sub: Disclosure pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir/Madam,

As per Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with corresponding circulars and notifications issued thereunder, please find enclosed herewith newspaper clippings of Un-Audited Financial Results of the Company for the First Quarter ended on 30th June, 2025. The Company published the advertisement in the following newspapers.

- 1. Business Standard (All editions) in English Language on 23.07.2025.
- 2. Business Standard (Delhi edition) in Hindi Language on 23.07.2025.

This is for the information of the exchange and the members.

Yours truly, For KEI INDUSTRIES LIMITED

(KISHORE KUNAL) **VP (Corporate Finance) & Company Secretary**

CC:

Branch

Offices

The National Stock Exchange of India Ltd. Listing Division, Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051

The Calcutta Stock Exchange Ltd. The Senior Manager, Listing Division, 7, Lyons Range, Kolkata-700001

Works-I: Bhiwadi: SP-919/920/922, RIICO Industrial Area, Phase-III, Bhiwadi, Dist. Alwar-301019 (Rajasthan); Tel: 01493-220106/221731, E-mail: bhiwadi@kei-ind.com Works-II: Chopanki: A-280-284 RIICO Industrial Area (Chopanki) Dist. Alwar-301019 (Rajasthan); E-mail: chopanki@kei-ind.com Works-III: Silvassa: 99/2/7, Madhuban Industrial Estate, Rakholi, Silvassa UT of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu-396230;

Tel: +91-7359344404/7359244404; E-mail: silvassa@kei-ind.com

F-90/1-A, F Block, Okhla Industrial Area, Phase-1, New Delhi - 110020, Tel.: +91 11 6905 6800

Delhi Chennai : No.04, (Old No.23) SIR C P Ramasamy Road, 2nd Floor, Near Apollo Spectra Hospital, Alwarpet, Chennai-600018; Tel : 044-42009120 Arihanth Benchmark, 4th Floor, 113-F. Matheshwartola Road, Kolkata-700046. Tele: 033-40620820/40620821; E-mail: kolkata@kei-ind.com Kolkata :

Nirvan Corporate, 7th Floor, Opposite Aghadi Nagar, Pump House, Jijamata Road, Andheri East, Mumbai-400093; Tel: 91-22-28239673/28375642 Mumbai : E-mail: mumbai@kei-ind.com



NMC proposes to develop a component of Orange City Street Project, a Mixed-Use Complex at Plot No. 3 along the Khamla-Jaitala Road. NMC plans to implement this Project on Public Private Partnership (PPP) mode through the Design-Build-Finance-Operate and Sale (DBFOS) model. NMC is therefore calling for proposals from established Infrastructure Developers to be appointed as the Developer for this prestigious project. Details of this tender is available on the Government website www.mahatenders.gov.in.

Www.inateriours.gov.imelines: 1, RFP Sale: 22/07/2025 to 12/08/2025 till 5p.m. 2, Pre-Bid Meeting: 30/07/2025 at 4.00 p.m. 3, RFP Online & Hard Copy Submission End Date: 12/08/2025 till 50.0 p.m. 4. Earnest Money Deposit/Bid Security: Rs. 1,70, 00, 000+ (Rupees One Crore and Seventy Lacs only). 5. Tender Fees (Non-Refundable): Rs. 50,000f-(Rupees Fifty Thousand only) plus applicable GST.

Advt No. 291 PR Date 21.07.2025

Executive Engineer (Project-II) Nagpur Municipal Corporation.



Petronet LNG Limited

NOTICE INVITING TENDER (NIT)
FOR COMPREHENSIVE PROJECT INSURANCE OF
PETROCHEMICAL COMPLEX AT
PETRONET LNG LIMITED, DAHEJ, GUJARAT

Petronet LNG Limited (PLL) invites proposals brough Competitive Bidding from experienced and financially sound Insurance Companies for Comprehensive Project Insurance of Petrochemical Compite at Petronet LNG Limited, Dahej, Gujarat.

Interested Insurance Companies are requested to visit our website www.petronetlig...if or detailed eligibility criteria along with other necessary details for issuance of Tender Document.

Chief Manager (C&P)
PETRONET LNG LIMITED 1" Floor, World Trade Centre, Babar Road, Barakhamba Lane, New Delhi-110 001, India Tel: No. +91-11-23472525 Email: cnp@petroneting.in

EPL Limited



SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGMENT OF TRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES OF EPL LIMITED

NOTICE is hereby given that in terms of the provisions lated July 2, 2025, bearing reference no. SEB/HO/MIRS/IR/2025/97, issued by the Securities and Exchange Board of pecial Window has been opened, for a period of six months. Special Window has been opened, for a period of six months i.e. from July 2025 till January 6, 02056, to facilitate the re-lodgement of transfer request which had been lodged, prior to the deadline of April 1, 2019 fixed by the SEB for transfer of physical shares, with PPL lumited ("Company") and/or it Registrar and Share Transfer Agents viz. Bigshare Services Pvt. Ltd. ("RTX" and which were rejected? returned from at attended to, in view of deficiency (let

and which were rejected if returned if not a transited to, in view of deficiency (in the documents) process of hereing in the documents for process of the review. Accordingly, we request the shareholders and such other persons, whose transfer requests were rejected if returned not attended to, as mentioned above, to avail the benefit of this opportunity and get in touch with the RIA of the Company, at the below mentioned address, for solutions of necessary documents with respect to transfer of physical shares of the Company at the Company at Moreos Park, Bigharse Services PM. Ltd.

Units EPI Limited; Address Office No. 56-2, 0° Floor, Prinade Business Park, Next to Ahura Centre, Mahadali Crues Road, Andheri (East), Mumbai – 400093; 1at: 1022–6185200/222/223.

Email: Investice Medical transcriber.

Place : Mumbai Date: July 22, 2025

For EPL Limite

Onkar Ghan Head- Legal, Company Secretary & Compliance Officer



KEI INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: D-90, Okhla Industrial Area, Phase I, New Delhi-110 020 Phone: 91-11-26818840/26818642, Website: www.kei-ind.com E-mail Id: <u>cs@kei-ind.com</u> (CIN: L74899DL1992PLC051527)



UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2025

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015

The Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended June 30, 2025 ("Financial Results") have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on Tuesday, July 22, 2025.

The said Financial Results along with the Limited Review Report have been posted on the Company's webpage at https://www.kei-ind.com/investor-relations/financial-performance/quarterly-results/ and on the websites of the Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com and can be accessed by scanning the QR Code provided belo



For KEI Industries Limited

Anil Gunta

Place of Signing: New Delhi Date: 22.07.2025

Chairman-cum-Managing DIN: 00006422

..Continued from previous page

The Price Band, Floor Price and Issue Price will be determined by our Company in consultation with the Boo Running Lead Manager, on the basis of assessment of market demand for the Equity Shares offered through th The Price Band, Floor Price and issue true to a Annual pala Maragor on the basis of assessment of market demand for the Equity Shares otheron through une Book Building Process and on the basis of the quantitative and qualitative factors described below. Investors should read the following basis with the sections table "The Sections The The Sections Information" and the chapter tabled "Our Business" beginning on page nos. 6, 159 and 107 respectively, of this Rod Hermig Prospectus to get at more informed view better making any investment decisions. The bading price of the Equity Shares of Our Company could decline due to these risk factors and you may loss all or part of your investments.

- alitative Factors
 me of the qualitative factors and our strengths which form the basis for the Issue Price are:
 Experienced Management team
 Quality Assurance
 Long Standing Relations
 Well Established Manufacturing Set up
 Scalable Business Model
 Diversified Productin; with Strong focus on value added products
 more details on qualitative factors, refer to chapter "Our Business" on page no 107 of this Red Herring
 ssockuls.

Quantitative Factors

Quantitative Factors
The information presented in this section is derived from our Restated Financial Statements. For more details on financial information, investors please refer the chapter titled "Financial Statements as Restated" on page no. 159 of this Red Herring Prospectus.
Investors should evaluate our Company taking into consideration its earnings and based on its growth strategy. Some of the quantitathe factors which may form the basis for computing the price are as follows:

1. Basic and Diluted Earnings / Loss Per Share ("EPS")

Year ended March 31.	Basic & Diluted (Based on equ	uivalent weighted avg. shares)
lear chaca march or,	EPS (in ₹)	Weights
2025	7.60	3
2024	3.18	2
2023	1.49	1
Weighted Average		11

- tes:

 Basic EPS has been calculated as per the following formula:

 Basic EPS (₹) =

 (Net profit/ floss) as restated attributable to Equity Shareholders)/

 (Weighted average number of Equity Shares outstanding during the year/period)
- Diluted EPS has been calculated a sper the following formula

 Diluted EPS (₹) = (Net profit/floss) as restated, attributable to Equity Shareholders)/

 (Diluted Weighted average number of Equity Shares outstanding during the year/period)
- c. Basic and Diluted EPS calculations are in accordance with Accounting Stantes of 20 "Earnings per Share", notified under section 133 of Companies Act, 2013 read together with paragraph 7 of Companies (Accounting) Rules, 2014.
- d. The above statement should be read in conjunction with Significant Accounting Policies and Notes to Restated Financial Statements as appearing in "Annexure IV & V Financial Information" beginning on page no. 159 Red
- Price Earnings Ratio ("P/E") in relation to price band of ₹ 102 to ₹ 108 per Equity Share of face value of ₹ P/E at the lower end P/E at the higher end

ı	Particulars	of the Price Band	of	the Price Band	ı
l	Based on basic and diluted EPS for Fiscal 2025	13.42		14.21]
l	Industry P/E ratio				
l	Particulars			P/E	1
l	Highest			97.1	1

Notes: The industry high, low and average has been considered from the Capital Market 12/40STPDT012Jul21-Aug 03, 2025. Industry "Plastic Products").

3. neturii dii Net Wortii (non W)		
Year ended March 31,	RoNW (%)	Weight
2025	35.97%	3
2024	23.49%	2
2023	14.41%	1
Weighted Average	28.2	2%

Note: Return on Net worth has been calculated as per the following formula:

(Net profit/loss after tax, as restated)/ (Net worth excluding preference share capital and revaluation reserve)

BASIS OF ISSUE PRICE

4. Net Asset Value (NAV)		- 1
Financial Year	NAV (₹)	11
NAV as at March 31, 2025	21.12	11
NAV after Issue		7 [
- At Floor Price	45.03	7 [
- At Cap Price	46.80	1 [
Issue Price	[•]	11
Make Alak A a a k (a) a has been pulsa dated as a sub-faller dated as a sub-		- 1

sset Value has been calculated as per the following formula: (Net worth excluding preference share capital and revaluation reserve)/

(Outstanding number of Equity shares at the end of the year)

Key Performance Indicators

5. Key Performance Indicators: The RVS disclosed below have been approved by a resolution of our Audit Committee dated June 20, 2025 and the members of the Audit Committee have verified the details of all RVS perfaining to our Company. Further, the members of the Audit Committee have ordified that there are no KPS perfaining to our Company. Further, the members of the Audit Committee have confirmed that there are no KPS perfaining to our Company has have been disclosed to any investors at any point of time during the three years period prior to the date of filing of this DRIP4 in Citruther, the KPS herein have been certified by MS. Jagolish & Fairsh, Stautory Auditor, by their certificate dated June 20, 2025. For further details, please refer to the sections entitled "Our Business" and "Managements" business of managed Condition and Results of Operations" beginning on pages 107 and 191

respectively.				
Particulars	Consolidated	Standalone		
Particulars	Fiscal 2025	Fiscal 2024	Fiscal 2023	
Revenue from Operations	8,237.85	5,425.02	5,461.30	
EBITDA (1)	1,558.26	578.95	321.40	
EBITDA Margin (%) (2)	18.92%	10.67%	5.89%	
Restated profit for the period / year	760.54	318.00	149.22	
Restated profit for the period / year Margin (%) (3)	9.23%	5.86%	2.73%	
Return on Equity (*RoE*) (%) (4)	43.86%	26.62%	15.53%	
Return on Capital Employed ("RoCE") (%) (5)	43.50%	35.13%	24.52%	
Net Debt / EBITDA Ratio (6)	1.30	0.71	0.29	

NOTES:
(1) EBITDA is calculated as restated profit for the year plus tax expense plus depreciation and amortization plus

Intance costs plus exceptional items. (2) EBITOA Margin is calculated as EBITOA divided by revenue from operations. (3) Restated profit for the year margin is calculated as restated profit for the period / year divided by

operations.

(4) RoE is calculated as Net profil after tax divided by Average Equity.

(5) RoE is calculated as Net profil after tax divided by Average Equity.

(6) Not Destruction of the Section of the Section of the Section of the Section of the New York Office of the Section of the New York Office of the Section of t

Revenue from operations: Revenue from operations represents the total furnover of the business as well as provides information regarding the year over year growth of our Company. EBITDA: EBITOA is calculated as Restated profit | loss for the period plus tax expense plus depreciation and amortization plus finance costs and any exceptional terms (EBITOA provides information regarding the operational efficiency of the business of our Company. EBITOA areging terms (EBITOA Margin the percentage of EBITOA divided by revenue from operations and is an indicator of the operational profitability of our business before interest, depreciation, amortization, and taxes. Restated positif for the period it year. Restated profit for the period it year revenest the profit | loss that our Company makes for the flavarioid year or during a given period. It provides information regarding the profitability of the business of not Company.

Company images on or unknowney eron county the business of our Company in the tall of Restated profit for the period (year Margin is the ratio of Restated profit for the period for the period in the period to the

contribution.

Return on Capital Employed ("RoCE"): RoCE is calculated as Earnings before interest and taxes (EBIT) divided by Capital Employed by the Company for the period. RoCE is an indicator of our Company's efficiency as it measures our Company's profitability. RoCE is indicative of the profit generation by our Company against the capital

employed.

Net Debt EBITDA: Net Debt to EBITDA is a measurement of leverage, calculated as a company's interest-bearing liabilities minus cash or cash equivalent and invided by its EBITDA. It shows how many years it would take for a company top ayback its debt if net belded and EBITDA are held constant. Set forth below are the details of comparison of key performance of indicators with our listed industry

	For the per	For the period ended March 31, 2025				
Particulars	B. D. Industries (Pune) Limited ^(a)	Nilkamal Limited	Time Technoplas Limited			
Revenue from Operations	8,237.85	3,31,276.06	5,45,704			
EBITDA	1,558.26	29,403.76	79,022			
EBITDA Margin (%)	18.92%	8.88%	14.48%			
Restated profit for the year	760.54	10,680.53	39,445			
Restated profit for the year Margin (%)	9.23%	3.22%	7.23%			
Return on Equity ("RoE") (%)	43.86%	7.18%	13.32%			
Return on Capital Employed ("RoCE") (%)	43.50%	10.10%	18.09%			
Net Debt / EBITDA Ratio	1.30	0.79	0.59			

- Past Tracstre() / Niloment(s). There has been issuance of Equity, Shares or convertible securities, (excluding the shares issued under issuence in the summer of the street issuence in the security of the securities of
- months preceding the date of this Red Herring Prospectus.

 Further we had not under taken any primary / new issuance of Equity Shares or any convertible securities during the period of perceding there years from the date of this Red Herring Prospectus except for issuance of equity shares on bonus issues as disclosed in the section remitted. Capital Exturber on page 71 of this Red Herring shares on bonus issues as disclosed in the section remitted. Capital Exturber on page 71 of this Red Herring shares on bonus issues as disclosed in the section remitted. The provided of the properties of the propert

of Acquisition (WACA) with in 0 110011 fied & day 1 fied is not possible.					
Past Transactions	WACA	IPO Floor Price - 102	IPO Cap Price - 108		
WACA of Primary issuance*	NIL	NA	NA		
WACA of Secondary transactions**	NIL	NA	NA NA		

- *Excluding the shares issued under issuance of bonus shares
 ** Excluding the shares acquired / sold for minimum requirem
 Private Limited to Public Limited.

ustry Peers

B. F. L.		EPS	(₹)	PE F	Ratio	RONW	per	Face Value	from
Particulars	CMP	Basic	Diluted	Basic	Diluted	(%)	share (₹)	value (₹)	Operations (₹ in Lakhs)
B. D. Industries (Pune) Limited	[•]	7.60	7.60	[•]	[•]	35.97%	21.12	10.00	8,237.85
Peer Group **									
Nilkamal Limited#	1,785.95	71.32	71.32	25.04	25.04	7.18%	997.48	10.00	3,31,276.06
Time Technoplast Limited#	443.60	17.1	17.1	25.94	25.94	13.32%	130.53	1.00	5,45,704
Supreme Industries Limited#	4,392.30	75.64	75.64	58.07	58.07	16.98%	445.61	2.00	10,44,625
+ CMD for our Comp	ani aball be		and an Inn.	a Deina					

Notes:

(i) All the financial information is based on the Restated Financial Statements for the year ended March 31, 2025 (on Consolidated basis) on the Restated Financial Statements for the year ended March 31, 2025 (on Consolidated basis) on the service of the Financial information of the peer company submitted to stock exchanges for the year ended March 31, 2025.

(ii) Considering the nature and size of business of the Company, the peers are not strictly companable. However, above Companies have been included for troad companies. The investors may also want to peer safe to the Tubic Issue significant with the Book Running Lead Manager believes that the Issue price of ₹ [•] per share for the Public Issue significant five world the above Companies. The investors may also want to peeus the Risk Factors and Financials of the Company including important profitability and return ratios, as set out in the Financial Statements included in this Red Herming Prospectus to have more informed velve about the investment proposition. The Tace value of the Equity Shares is ₹10 per share and the Issue Price is [•] times of the face value i.e. ₹ [•] per share

BOOK RUNNING LEAD MANAGER TO THE ISSUE



ARYAMAN FINANCIAL SERVICES LIMITED
60, Khātau Buliding, Ground Floor, Alkesh Dinesh Modi Marg, Fort,
Mumhai — 400 001
Telephone: +91-22 – 6216 6999
E-mall: [po@afsl.co.in: Website: www.afsl.co.in
Investors Girevance E-mail: Teddpack@afsl.co.in

Contact Person: Vatsal Ganatra / Deepak Biyani SEBI Registration Number: INM000011344



REGISTRAR TO THE ISSUE CAMEO CORPORATE SERVICES LIMITED
Subramanian Buliding, No. 1, Olub House Road, Chennai – 600 002.
Tell. No. : 91 - 44 – 40002700 (5 Lines)
Email: pip/@Camerioridia.com
Investor Grievance Email: investor@Cameriodia.com

Contact Person: K. Sreepriya SEBI Registration No.: INR000003753

BDP

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER

Presana Barupur Gor Company Serveriay and Compliance Officer. Reg Office: 15th Fr. 1501-8. Linkercal Majestic, Pt. Lokhande Marg, G M Link Road, Nr R B K International School, Mumbal Billy Geverand West Murmbal, Maharashtra, India, 400043, India Tel: 022-6249-0801; Email Idc cs@bd-group.org

AVAILABILITY OF THE RED HERRING PROSPECTUS: Investors are advised to refer to the RHP and the "Risk Factors" beginning on page 26 of the Red Herring Prospectus, before Financial Services Limited at www.afsl.co.in and on the website of BSE at www.bselindia.com. ing in the Issue. A copy of the Red Herring Prosp

AVAILABILITY OF BID CUM APPLICATION FORMS: Bid cum Application Forms can be obtained from the Registered Office of the Company B. D. Industries (Pune). Limited, Tel: 022-6249-0801; the BRLM: Aryaman Financial Services Limited, Tel: +91 - 22 - 6216 6999. Syndicate Members: Aryaman Financial Services and at the select locations of the Sub-syndicate Members (as given below), SCSBs. Registered Brokers, RTAs and COPs participating in the Issue. ASBA Forms will also be available on the websites of 85E and the Designated Branches of SCSBs, the list of which is available at websites of the Stock Exchanges and SEBI. Syndicate members: Arvaman Financial Services Limited

Sub-syndicate Members: IIFL Securities Ltd, Motilal Oswal Financial Services Ltd, Sharekhan Ltd & Others

Escrow Collection Bank, Refund Bank, and Public Issue Bank: Axis Bank Ltd

Date: July 23, 2025

. All capitalized terms used and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Red Herring Prospectus

For B. D. Industries (Pune) Limited On behalf of Board of Directors

Prerana Bhargav Gor

B. D. INDUSTRIES (PUNE) LIMITED is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offering of its equity shares ("issue") and has filed a Red Herring Prospectus ("RHP") with the Registrar of Companies, Mumbai ("RoC"). The RHP is available on the website of the SEI at www.seindia.com and the websites of the Book Running Lead Manager to the Issue, Avyaman Financial Services limited at www.sfis.com. All potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk. For details, potential investors should refer to the Prospectus which may be filled with the Rol. The further, including the sectoration ferring Prospectus Carefully, and page 25 of the Red Ferring Prospectus Carefully with the Roll and Prospectus Carefully and page 25 of the Red Ferring Prospectus Carefully and page 25 of The Equity Shares offered in this Issue have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 ("Securities Act") and may not be offered or sold within the United States (as defined in Regulation S under the Securities Act, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. Accordingly, the Equity Shares are only being offered and sold outside the United States in offishore transactions in compliance with Regulation S under the Securities Act and the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales occur. There will be no offering of securities in the United States.

पर कोई दावा/अधिकार/स्वामित्व/हित है, तो उन्हें सलाह दी जाती है कि वे दावे को प्रमाणि करने के लिए आवश्यक प्रमाण के साथ 10 दिनों के भीतर बैंक से संपर्क करें।

यदि 10 दिनों के भीतर कोई जवाब नहीं मिलता है. तो यह माना जाता है कि संपत्ति किसी भी शुल्क / दावे / भार से मुक्त है और बैंक बंधक के साथ आगे बढेगा।

संपत्ति का विवरणः लीजहोल्ड आवासीय प्लॉट संख्या 92, क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर, पॉकेट E, सेक्टर 20, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक क्षेत्र जिला गौतमबुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) में स्थित सीमाएँ

93, पूर्व- 18.00 मीटर चौड़ी सड़क, पश्चिम-प्लॉट संख्या ९७

शाखा/विवरण/संपर्क संख्या बैंक ऑफ बड़ौदा, अंसारी रोड, दरियागंज दिल्ली, संपक: 011 -23262953 संजीव गुप्ता (एडवोकेट) 813, आठवीं मंजिल द नेक्स्ट्रॉ, मयुर विहार, दिल्ली। मोबाइल नंबर: 9811154597

Navigate markets with focused insight.

Get daily sector trends, market movers, and sharp insights every day with The Compass in Business Standard.

To book your copy, SMS reachbs to 57575 or email



Business Standard Insight Out

राष्ट्रीय कम्पुनी विधि अधिकरण

इलाहाबाद बेंच, के समक्ष प्रयागराज "फार्म नं. एनसीएलटी उए" विज्ञापन विवरण याचिका (राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण नियम 2016 के (राष्ट्राय कपना ।वाध आधकरण ।नयन 2016 क नियम 35 के अनुसार) कंपनी याचिका सं. (सीएए) नं. 18 / एएलडी / 2025 सम्बद्ध के साथ कंपनी आवेदक सं. (सीएए) नं. 03 / एएलडी / 2025

म टीपी नं. 01/एएलडी (सीए (सीएए) नं. 6(केबी) 2025 साथ इस्तांतरण याचिकाकर्ता नं. 01/एएलडी /2025 कंपनी अधिनियम, 2013 के मामले में धारा 230 से 232 के अंतर्गत, कंपनी (समझौता, व्यवस्था और समामेलन) नियम, 2016 के साथ पढ़ें

और निम्नलिखित के बीच समामेलन की योजना के मामले राम्सिसारिया बिल्ड्स लिमिटेड रामाससारिया बि**ल्ड्स निमट्ड** कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधनों के अंतर्गत निगमित एक कंपनी इसका पंजीकृत कार्यालय 42, शिवटोला स्ट्रीट तीसरा पलोर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल–700007,

इ।७५॥ [CIN]: U45201WB1996PL000000 | PAN]: AABCR2247L |..हस्तांतरणकर्ता कम्पनी नं. 1/याचिकाकर्ता कम्पनी नं. 1

और वंदना गृह निर्माण लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 1966 के प्रावधानों के अंतर्गत निगमित एक कंपनी इसका पंजीकृत कार्यालय : फर्स्ट पलोर, लॉक-सी, 16ए चौरंगी मेशन 30 जवाहर लाल नेहरु रोड़, पार्क रट्टीट, कोलकाता वेस्ट बंगाल-700016,

CIN: U45201WB1996PLC082079 CIN : U45201WB1330F2002073 PAN : AAACV8816E ..हस्तांतरणकर्ता कम्पनी नं ्2/याचिकाकर्ता कम्पनी नं 2

..हस्तातरणकता कम्पनी नं 2 / याचिकाकर्ता कम्पनी नं 2 और

IV काउंटी प्राईवेट लिमिटेड
कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधनों के अंतर्गत निगमित
एक कंपनी इसका पंजीकृत कार्यालय : 114, फर्स्ट
पलोर, जीएच-05, सैक्टर-121, क्लियो स्ट्रीट, नोएडा
गौराम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301, इंडिया
CIN: U70102UP2012PTC093533

PAN: AACCI9503M
..हस्तांतरणकर्ता कम्पनी नं 3 / याधिकाकर्ता कम्पनी नं 3
के साध और में

क साथ आर म ट्रांसपोर्ट फाइनेंस लिमिटेड ट्रान्तभाट फाइन्स । लामट्ड कपनी अधिनयम, 1956 के प्रावधनों के अंतर्गत निगमित एक कंपनी इसका पंजीकृत कार्यालय : दूसरा पलोर, विलयों स्ट्रीट, प्लॉट नं. जीएच–05, संक्टर–121, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201301, इाड्या. CIN : U65921 UP1948PLC118668

याचिका की सूचना

याचिका की सूचना कंपनी अधिनेयम 2013 की धारा 230-232 के अंतर्गत एक याधिका, समामेलन योजना की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए, दिनांक 14.07.2025 को प्रस्तुत की गई थी। यह याधिका मैंस्स एंगसिसारिया बिल्डसं लिमिटेड (इस्तांतरणकर्ता कम्पनी नं, / याधिकाकर्ता कम्पनी नं, / याधिकाकर्ता कम्पनी नं, / याधिकाकर्ता कम्पनी नं, / याधिकाकर्ता कम्पनी नं, 2) और IV काउंटी प्राइंदर लिमिटेड, (इस्तांतरणकर्ता कम्पनी नं / याधिकाकर्ता कम्पनी नं, 3 कंपाब और इंप्तरापंट फाइनेस्त लिमिटेड, (इस्तांतरिती कम्पनी / याधिकाकर्ता कम्पनी भे मैं विलय हस्तातारता कम्पानी / याविकाकता कम्पना ४) में विलय रातु दायर के गई है। उक्त याविका अब माननीय म्ट्रीय कपनी न्यायाधिकरण, इलाहाबाद पीठ, के समक्ष 4.09.2025 को सुनवाई के लिए निर्धारित की गई

कोई भी व्यक्ति जो उक्त याचिका/आवेदन/संदर्भ का समर्थन या विरोध करना चाहता है. उसे अपनी मंशा की एक प्रति नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा किसी भी इच्छुक व्यक्ति को निर्धारित शुल्क के भुगतान पर प्रदान की व्यावत का भाषा जाएगी | दिनांक : 23.07.2025

रनाक : 23.07.2025 पीनाम एण्ड कंपनी एलएलपी एफ–14/15, दूसरा फ्लोर शिवम हाऊस, मिडिल सर्कल, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001 मोबाइल : 9999366607/9899199120 complianceandlegal@pnam.co

शाखा कार्यालय पत्ताः तृतीय तल, वा स्कीम नंबर 1, मेरठ यू.पी.-250004.

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावसी, 2002 अद्यतन संघोधित, के नियम 3(1) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रति पुनरनिर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 20 के अध्याय III की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जाएगा) के अध्याय खखख की धारा 13(2) के तहत हमारे झांसी कार्यालय द्वारा डिमांड नोटिस जारी किया में प्रवर्तन अधिनियम की किस्तों के भुगतान में आपके द्वारा की गई चूक है। जिसका बकाया राष्ट्रि का उल्लेख नीचे किया गया है। इसके अलाता, कारणों सहित, हमारा मानना है कि आए मांग नोटिस के प्रकाश तामील से बच रहे हैं और इसलिए मांग नोटिस को यह प्रकाशन, जो कि उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत भी आवश्यक है। आपसे अनुरोध है कि आप इस मांग नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर पीएनबीएचएफएल को उपरोक्त राशि, साथ ही अखतन ब्याज और शुष्क का भुगतान करें, ऐसा न करने पर पीएनबीएचएफएल उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के सभी या किसी भी प्रावधान के तहत उधारकर्ताओं और गारंदरों की सुरक्षित संपत्तियों पर कब्जा करने सहित सभी या किसी भी प्रवाधान के तहत उधारकर्ताओं और गारंदरों की सुरक्षित संपत्तियों पर कब्जा करने सहित सभी या किसी भी आधान के उपधारा (8) के प्रावधानों की और आइक्ट किया जाता है, जिसके अंतर्गत आप पीएनबी एचएफरल द्वारा वहन की गई सभी लागती, प्रमारों और क्यों सहित बकाया राशि की पूरी राशि केवल सार्वजनिक नीलामी द्वारा सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए नोटिस के प्रकाशन की तिथि तक कोटेयन आमंत्रित करके, जनता से निविदा या निजी संधि द्वारा भूगतान कर सकते हैं। कृपया यह भी ध्यान दें कि पहले कोटेयन आमंत्रित करके, जनता से निविदा या निजी संधि द्वारा सुरक्षित परिसंपत्त्रियों को मुक्त करने के हकदार नहीं होंगे। इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री, पुट्टे या किसी अन्य तरीके से उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्त्रियों को मुक्त करने के हकदार नहीं होंगे। इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री, पुट्टे या किसी अन्य तरीके से उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्त्रियों को मुक्त करने के हकदार नहीं होंगे। इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री, पुट्टे या किसी अन्य तरीके से उपरोक्त सुरक्रित सुरक्षित परिसंपत्त्रियों को मुक्त करने के हकदार नहीं होंगे। इसके

ऋण	कर्जदार(रों) सह–कर्जदारों/का नाम	गारंटरों	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग	मांग सूचना	
खाता सं.	उधारकर्ताः श्री/स्श्री फ्रकान, शाहजहा, कॉलोनी, गली नंबर 7 60 फूट, मेरठ,			सूचना की	के अनुसार	
एचओयू/	मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत-250002./अंसारी मलिक डेयरी, गली नंबर 4, शाहजहां, कॉलोनी		डी-33, खसरा नंबर 3230		बकाया राशि	
आरएमईई/	मुजफ्फरनगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत-250002./ एच नंबर् 322 प्लॉट नंबर ड़ी 33,		3235, 3236/1 3240 3252,	तिथि	रु. 11,33,517.59	
0623/	खुसरा नंबर ३२३० ३२३५, ३२३६/१ ३२४० ३२५२, ३२५४ ३४३३ और ३६६४, शाहजहां नग्र	एन ए	3254 3433 और 3664,	18	(केवल ग्यारह लाख	
	कॉलोनी गली नंबर ७ मेरठ, मेरठ, मेरठ, उत्तर प्रदेश-250002 सह-उधारकर्ताः		शाहजहां नगर कॉलोनी	जुलाई	तैंतीस हजार पाँच	
बी.ओ.:	श्री/सुश्री शमशीदा, शाहजहा, कॉलोनी, गली नंबर 7 60 फुट, मेरठ, मेरठ, उत्तर		गली नंबर 7 मेरठ, मेरठ,	2025	सौ सत्रह और	
मेरठ	प्रदेश, भारत-250002. /एच नंबर 322 प्लॉट नंबर डी - 33, खसरा नंबर 3230 3235,		मेरठ, उत्तर प्रदेश-250002		उनचास पैसे)	
	3236/1 3240 3252, 3254 3433 और 3664, शाहजहां नगर कॉलोनी गली नंबर 7 मेरठ, मेरठ, मेरठ, उत्तर प्रदेश-250002.					
				40		
	उधारकर्ताः श्री/सुश्री श्रीमती गुलबहार, ईदगाह, कॉलोनी, लिसारी रोड, मेरठ,	एन ए	मकान नंबर 322/15, प्लॉट	18	₹.14,48,976.10	
	मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत-250002./मकान संख्या 322/15, प्लॉट संख्या 15 का		नंबर 15 का हिस्सा, मिनजुमला का 16 हिस्सा, खसरा नंबर	जुलाइ	(कवल चादह लाख अडतालीस हजार	
	हिस्सा, 16 मिनजुमला का हिस्सा, खसरा संख्या 2759 2767 2768, गांव नूर नगर		2759 2767 2768. गांव नर	2025	नौ सौ छिहत्तर	
	डॉल्फिन वाली गुली के सामने, बी एस पैलेस लिसारी रोड मेरठ, मेरठ, मेरठ, जेतर		नगर डॉल्फिन वाली गली		रुपये और दस पैसे)	
	प्रदेश-353013. सह-उधारकर्ताः श्री/सुश्री. मोहम्मद अकरम, ईदगाह, कॉलोनी, लिसाडी रोड, मेरठ, मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत-250002./हाउस नंबर 322/15, प्लॉट		के सामने, बीएस पैलेस		+ ₹.5,48,605.54	
0723/	निबर 15 का हिस्सा, मिनजुमला का 16 हिस्सा, खसरा नंबर 2759 2767 2768, गांव		लिसाड़ी रोड के सामने,		(केवल पाँच लाख	
	नुष्ठ नगर डॉल्फिन वाली गली के सामने, बीएस पैलेस लिसाड़ी रोड मेरठ, मेरठ, मेरठ,		मेरठ. मेरठ. मेरठ. उत्तर		अडतालीस हजार छह	
बी.ओ.:मेरठ	नूर नगर जात्का न १६२०१२		प्रदेश-353013		सौ पाँच चौवन पैसे)	
	उत्तर प्रदेश - 353013					
स्थान : उत्त	ध्यान : उत्तर प्रदेश । तिथि : 23.07.2025 प्राधिकृत अधिकारी, पीएनबी हौसिंग फायनान्स लिमिटेड					

UCO BANK 1 शाखा कार्यालयः 3, कम्युनिटी सेंटर, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र, फ़ेज-1, नई दिल्ली-110064

जबिक अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन {अधिनियम, 2002 (2002 का 54)} के तहत **यूको बैंक, मायापुरी शाखा, नई दिल्ली** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के {नियम 3} के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **उधारकर्ताः मैसर्स राधे स्टोर के** मालिक श्री राधे श्याम चघ, को एक मांग नोटिस दिनांक 15-05-2025 को जारी किया था. जिसमें सचना में उल्लेखित राशि रु. 80,13,019,15 **(रु. अस्सी लाख तेरह हजार उन्नीस और पैसे पद्रह मात्र) दिनांक 30,04,2025 तक,** उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने को कहा गया है। उधारकर्ता उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतदद्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरों ने नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा, प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा दिनांक 19 जुलाई 2025 को ले लिया है। उधारकर्ता को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्ति के साथ लेन–देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन–देन **यूको** बैंक, मायापुरी शाखा, नई दिल्ली के प्रभार वास्ते बकाया राशि रु. 80,13,019.15 (रु. अस्सी लाख तेरह हजार उन्नीस और पैसे

कब्जा सूचना परिशिष्ट IV [नियम 8(1) देखें](अचल सम्पत्ति के लिए)

उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जिसमें भूतल पर दो दुकानें, संपत्ति जेर / 94, बिना छत के अधिकार के, ब्लॉक जे-7, राजौरी गार्डन (नेहरू मार्केट), गाँव तातारपुर, दिल्ली-110027, में स्थित, क्षेत्रफल - 197 वर्ग फूट (प्रत्येक दुकान) पंजीकरण उप-जिला दिल्ली और जिला दिल्ली के अंतर्गत

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी, तिथि: 19.07.2025 स्थानः नई दिल्ली



वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड

कॉर्पोरेट ऑफिस : 620, छठवीं मंजिल, नॉर्थ ब्लॉक, वर्ल्ड ट्रंड पार्क,

मालवीय नगर, जेएलएन रोड, जयपर- 302017, टेलीफोन: 0141- 4750000 सिक्युरिटाईजेशन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत मांग सूचना पत्र

कम्पनी के प्राधिकत अधिकारों द्वारा निम्न सूची के अनुसार ऋणी का खाता एन.पी.एन. होने के कारण निम्न तालिका के अनुसार '' वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूमिकरण एवं पनर्गठन और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002'' की धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिन का नोटिस दिया गया था। नोटिस के अनुसार यदि ऋणी⁄गारण्टर 60 दिवस के अंदर बकाया ऋण राशि जमा नहीं कराते हैं तो ऋण की वसूली बंधक सम्पत्ति को नीलाम करके की जायेंगी। डिमाण्ड नोटिस की तामील ना होने के कारण नोटिस की छायाप्रति बंधक सम्पत्ति पर चस्पा की जा चुकी है। अत: आपको यह सुचित किया जाता है कि नोटिस प्रकाशित दिनांक से 60 दिन के अन्दर-अन्दर निम्न तालिका के अनुसार रूपया तथा भविष्य का ब्याज, वसुली में होने वाला खर्चा जमा कराये अन्यथा एक्ट की धारा 13 (4) एवं 14 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न सुची के अनुसार साम्यिक बंधक सम्पत्ति का भौतिक कब्जा लेने एवं इसे नीलामी कर ऋण राशि की वसली कराने के लिए पाधिकत अधिकारी स्वतंत्र होंगे।

विवास राज्या वार्याच्या वार्याच्या राज्या वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा व्यवस्था वर्षा वर्षा					
ऋणी ⁄ सहऋणी ⁄ बंधककर्ता ⁄ गारंटर का नाम एवं ऋण खाता संख्या	धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	बंधक सम्पत्ति का विवरण			
(ऋण खाता संख्या) LN34031HP21- 22006387 & LN34031HC22-23010131, श्री विपिन कुमार पुत्र श्री मगिया राम (ऋणी), श्रीमती अनीता देवी पत्नी विपुन कुमार (सहऋणी)	18-07-2025 Rs. 1,53,022.83 एक लाख तिरेपन हजार बाईस रूपये एवं तिरासी पैसे मात्र एवं Rs. 14,16,498.73 चौदह लाख सोलह हजार चार सौ अठानवे रूपये एवं तिहत्तर पैसे मात्र 11-07-2025 तक	श्री विपिन कुमार पुत्र श्री मगिया राम की संपत्ति के सभी अभिन्न अंग स्थित खसरा नं. 413, एम आई, मौजा शाहपुर, कल्याणपुर, परगना, पांचवादून, तहसील विकास नगर, जिला देहरादून, उत्तराखण्ड 248142, क्षेत्रफल 1417 वर्गफीट			
(ऋण खाता संख्या) LN34032HE22- 23011875, श्री लिलत कुमार पुत्र श्री संत राम (ऋणी), श्रीमती कमलेश (सहऋणी)	18-07-2025 Rs. 8,80,696.73 आठ लाख अस्सी हजार छ:सौ छियानवे रूपये एवं तिहत्तर पैसे मात्र 10-07-2025 तक	श्री ललित कुमार पुत्र श्री संत राम की संपत्ति के सभी अभिन्न अंग स्थित मकान स्थित मोहल्ला सती घाट, कंखला, परगना ज्वालापुर, तहसील एवं जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड 249408, क्षेत्रफल 312 वर्गफीट			
दिनांकः 22-07-2025 स्थानः उ	स्तराखण्ड	प्राधिकृत अधिकारी चंडर होम फाइनेंस लिमिटेड			

शाखा कार्यालयः तृतीय तल, वाणिज्यिक प्लॉट नं. 175/1 और 177/1 पीपी प्लाजा, मंगल पांडे नगर, सीसीएस यूनिवर्सिटी रोड, स्कीम नं. 1. में भरुट यूपी— 250004, **शाखा कार्यालय** 7 स्काई बिल्डिंग, द्वितीय तल, गिरधारी नगर, गढ़ रोड, मनोहर हेरिटेज के सामने, हायुड 245101, उत्तर प्रदेश

मित व प्राचित प्राचित प्राचित कार्यालय एवार ने 17/71 बाप प्राच्या, मांचा पढ़ पढ़ सुनिहान हो, व प्राचित प्राचि

परणाना 415 / 2 उन्हां सादिक नार भेरट, मेरट, परंट, प्रदेश, भारत 250002, (उचारकती), औ/ सुओ रियाजुल हक, मकान नगर निगम नंबर 2388, वार्ड नंबर 75, प्लॉट नंबर 18 का हिस्सा, वसरा नंबर 3200 का परिवमी हिस्सा, समर गार्डन कांलोगी अहमद मरिजद के पास, समर गार्डन कर पुरत मेरट, उनरेंद्र, उत्तर प्रदेश, 353018, (क्ष-च्यापकती), औ/ सुओ परणाना फरणाना, मकान नगर पालिका नंबर, 2388 वार्ड नंबर 75, प्लॉट नंबर 18 का हिस्सा, वसरा नंबर 3200 का परिवमी हिस्सा, समर गार्डन कांलोगी अहमद मरिजद के पास, असरा नंबर 3200 का परिवमी हिस्सा, वसरा मंदिर वह के पास, वसरा मंदिर वह कर परवमी हिस्सा, वसरा मंदिर वह के पास, वसरा मंदिर वह कर परवमी हिस्सा, वसरा मंदर वह का परवमी हिस्सा, वसरा मंदिर वह का परवमी हिस्सा, वसरा मंदिर वह का पास, वसरा मंदर वसरा मंवर वसरा मंदर वसरा	ऋण खाता संख्या(ये)	जघारकर्ता एवं सह—जघारकर्ता का नाम एवं पता	गारंटर(रो) का नाम एवं पता	बंधककृत संपत्ति (याँ)	माँग सूचना की तिथि	माँग सूचना तिथि के अनुसार बकाया राशि
0724/ 5045126 भारत— 201204, (उधारकता), श्री/पुश्री पेहित कुमार, एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, प्लॉट न 30, 'सेक्टर 128, गीतम बुद नगर, उत्तर प्रदेश, भारत— 201301, (सह—च्यारकता), श्री/पुश्री कश्री रानी, 49 खंजरपुर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत— 201204 (सह—च्यारकता), श्री/पुश्री कश्री रानी, शिक्षा अधिकारी, कुंदरकी मुपाबाद, थाना कुलवारा, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत— 201204 (सह—च्यारकता), श्री/पुश्री कश्री रानी, शिक्षा अधिकारी, कुंदरकी मुपाबादा, थाना कुलवारा, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत— 201204 (सह—च्यारकता), श्री/पुश्री क्षी रानी, शिक्षा अधिकारी, कुंदरकी मुपाबाद, वातर प्रदेश, भारत 201204 (सह—च्यारकता), श्री/पुश्री विकार प्रदेश, भारत 201204 (सह—च्यारकता), श्री/पुश्री	0523/ 1116768	भैरउ, उत्तर प्रदेश, मारत- 250002, (भाड- ज्यारकाती), श्री/ चुश्री फरणाना प्रराणाना 415/2 जंवा, साविक नगर भेरठ, भेरठ, उत्तर प्रदेश, मारत 250002, (ख्यारकती), श्री/ चुश्री रियाजुल हक, मकान नगर निगम नंवर 2388, वार्ड नंवर 75, प्लीट नंवर 18 का हिस्सा, खसरा नंवर 3200 का पश्चिमी हिस्सा, समर गार्डन कॉलोनी अझ्मद मस्जिद के पास, समर गार्डन क0 फुटा रोड भेरठ, मेरठ, उत्तर प्रदेश, 353018, (श्वह-अच्यारकात), श्री/ चुश्री फरणाना फरजाना, मकान नगर पालिका नंवर, 2388 वार्ड नंवर 75, प्लीट नंवर 18 का हिस्सा, खसरा नंवर 3200 का पश्चिमी हिस्सा, समर गार्डन कॉलोनी अझमद मस्जिद के पास, समर गार्डन 60 फुटा रोड मेरठ, मेरठ, सेरठ, उत्तर प्रदेश—353018		2368, वार्ड नंबर 75, प्लॉट नंबर 18 का हिस्सा, खसरा नंबर 3200 का पश्चिमी हिस्सा, खसरा नंबर 3200 का पश्चिमी हिस्सा, खसरा नंबर 3200 का पश्चिमी हिस्सा, समर गार्डन के पास, समर गार्डन 60 फुटा रोड मेरठ, मेरठ, मेरठ, परद, उत्तर	2025	14,83,892.41/— (रुपये चौदह लाख तिरासी हजार आठ सौ बयानवे और इकतालीस पैसे मात्र)
पारत, 201204 दिनाँक: 23.07.2025 हस्ता/— प्राधिकृत अधिक	0724/ 5045126	भारत- 201204, (ज्यारकता), श्री, सुश्री शंहित कुमार, एसशीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, एलॉट नं. उए, सेक्टर 126, गीतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, भारत-201301, (सन्द-उबारकता), श्री, सुश्री कबी रामी, 49 खंजरपुर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत- 201204 (सन्-ज्वारकता), श्री/सुश्री कबी रामी, शिक्षा आधिकारी, कुंदरकी मुरादाबाद, धाना कुलवारा, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत 244001 (ज्वारकता), श्री/सुश्री रोहित कुमार, खसरा नंवर 399, औरंगाबाद गदाना, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत 201204 (सन्-ज्वारकता), श्री/सुश्री कबी रामी, खसरा नंवर 309, औरंगाबाद गदाना, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत 201204		औरंगाबाद गदाना, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश,	2025	19,12,367.88/— (रुपये उन्नीस लाख बारह हजार तीन सौ सडसठ तथा छियासी पैसे मात्र)

🤻 शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

📤 पंजीकृत कार्यालय : 501, सालकॉन ऑरम, जसोला जनपद केंद्र, नई दिल्ली— 110025, सीआईएन : यू६5900डीएल2020पीएलसी366027 वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

पदंह मात्र) और उस पर ब्याज इत्यादि सहित के अधीन होगा।

की बारा 13(6) तथा 13(13) के साथ पठित बारा 13(2) के अंतर्गत माँग सुचना एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित उधारकर्ता / सह—उधारकर्ता, जिन्होंने **शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड,** इसका **प्रधान कार्यालय** तुतीय तल, एड **इंडिया टॉवर, सेक्टर 125, नोएडा— 201303** में स्थित है, से ऋण सुविधायें प्राप्त की हैं, वे **शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड** को उनकी ऋण सुविधाओं के ब्याज का भुगतान करने में विफल रहे हैं, और इसके परिणामरवरूप उनके ऋण खातों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा—निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उद्यारकर्ताओं ने **शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड** को अचल संपत्तियों की प्रतिभति उपलब्ध करोई है. जिसका विवरण यहाँ इसमें नीचे वर्णित है। **शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड** को उधारकर्ताओं द्वारा देय ऋण तथ बकाया राशियों का विवरण, तिथि के अनुसार, नीचे उल्लिखित किया गया है।

उधारकर्ता / सह—उधारकर्ताओं के साथ—साथ जनसाधारण को एतद्दवारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेर** के प्राधिकत अधिकारी, प्रतिभृत ऋणदाता के रूप में निम्नलिखित उधारकर्ता / सह-उधारकर्ताओं के विरुद्ध वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माप नथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफॉएसि अधिनियम) के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई आरंभ कर दी है। यदि निम्नलिखित उधारकर्ता इस सूचना के 60 (साठ) दिनों के भीतर अपने नामों के समक्ष दर्शाई गई बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल रहते हैं, तो अधोहस्ताक्षरकर्ता सरफॉएसि अधिनय की धारा 13 की उप–धारा (2) के अंतर्गत प्रतिभत ऋणदाता को प्रदत्त किसी एक या अधिक शक्तियों का प्रयोग करेंगे. जिसमें संपत्तियों का अधिग्रहण करने और उन्हें बेचने की शक्ति सम्मिलित है। जनसामान्य को सलाह दी जाती है कि वे यहाँ इसमें नीचे वर्णित संपत्ति का लेन-देन न करें। प्रतिभूत परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) के विवरण

सी 60 नेहरू नगर ततीय तल एफ ब्लॉक गाजियाबाद उत्तर प्रदेश

प्रदेश 201001

नाँक : 21–07–2025, स्थान : नोएडा

ज्ञापकर्ताओं / गाएंटर तथा बंधककर्ता का नाम

1. श्री पंकज शर्मा पुत्र श्री हरदत्त शर्मा (उधारकता) निवासी मकान नंबर सी 60, नेहरू नगर तृतीय तल, एफ ब्लॉक गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201001, **2. श्री हरदत्त शर्मा पुत्र श्री प्यारेलाल शर्मा** (सह-जबारकर्ता / बंबककर्ता) निवासी– मकान नंबर सी 60, नेहरू नगर, तृतीय तल, एफ ब्लॉक, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201001, **3.** श्री**मती तनु शर्मा पत्नी श्री पंकज शर्मा (गारंटर)**, निवासी मकान नंबर ऋण खाता सं., मांग सूचना तिथि तथा राशि 201001, 4. श्री शिव कुमार शर्मा पुत्र श्री प्यारेलाल शर्मा (गारंटर) ऋण खाता सं. 101541007336, माँग सूचना तिथि : 21-07-2025, बकाया

निवासी मकान नं. 186, न्यू पंचवटी कॉलोनी नगर, गाजियाबाद उत्तर पश्चिर: रु. 2,80,000/— (रुपये दो लाख अस्सी हजार मात्र) 20-07-2025 के अनुसार

पशु आहार निर्माण शाला, रूद्रपुर

प्राधिकृत अधिकारी, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

सार्वजनिक सूचनाः पहचान पत्र का खो जानाः

यह आम जनता के ध्यान में लाना है कि आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड द्वारा जारी श्री Mohammad Sartaj का एक आईडी कार्ड। आईडी कार्ड नं. **2528098**, DATE: — 15—07—2025 को लापता और / या खो गया पाया गया है। जो कोई भी उक्त आईडी कार्ड पाता है, उससे अनुरोध है कि उक्त आईडी कार्ड प्रबंधक ऋण सेवा एवं प्रबंधन समह आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड को वापस कर दें। Community centre SD Tower 1st floor, sector & 8, Rohini, New Delhi &110085

इसलिए, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के सभी ग्राहकों को एतद्दवारा सूचित किया जाता है कि उक्त आईडी कार्ड नंबर 2528098 धारण करने वाले किसी भी अनुधिकत व्यक्ति को कोई भगतान न करें। कुपया आगे ध्यान दें कि उक्त आईडी कार्ड रखने वाले किसी भी व्यक्ति को भगतान करने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी लागत, जोखिम और जोखिम पर ऐसा करेगा और आईसीआईसीआई बैंक किसी भी भूगतान के लिए बाध्य औरध्या जिम्मेदार नहीं होगा।

तारीखः 15-07-2025 आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के लिए स्थान:– दिल्ली

डीसीबी बैंक लिमिटेड डी.बी. गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली -

— 110005. कब्जा सचना

DCB BANK

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन एंव प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के तहत डीसीबी बैंक लिमिटेंड, का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (पर्वातन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ प्रतिन शास 13(12) के तहत पहला शक्तियों का प्रयोग करते हा . नम्नलिखित उधारकर्ता (उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता) को निम्नलिखित दिनांकों को मांग नोटिस जारी किया था, जिसमें मांग नोटिस में वर्णित बकाया राशि और भविष्य का ब्याज इत्यादि सहित उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतद्द्वार उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित सम्पत्तियों का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा(4), उक्त नियमों 2002 के नियम 8 के साथ-साथ r/w धारा 14(1) के तहत पटित के अधीन उन्हें पदन शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक 18.07.2025 ले लिया है।

उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे नम्न सम्पत्ति (अचल सम्पत्ति का विवरण) के साथ लेन-देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन-देन डीसीबी बैंक लि.. के प्रभार वास्ते निम्नांकित बकाया राशि के अधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

मांग सूचना की तिथि	21-10-2024
उषारकर्ता(ओं) और सह-उषारकर्ता(ओं) का नाम	श्रीमती सुषमा, श्री विक्रांत, श्री जय कुमार और श्री जोनी त्यागी
ऋण खाता नं	DRMBGHZ00437550
कुल बकाया राशि	रु. 10,07,496.37/- (रु. दस लाख सात हजार चार सौ छियान्चे और पैसे सैंतीस मात्र) दिनांक 21.10.2024 तक
अचल संपत्ति का विवरण	प्लॉट का वह समस्त भाग एवं अंश जोिक खसरा सं. 657 में समाहित. क्षेत्रफल 175.67 वर्ग मी. गाँवः सिहानी परगना—लोनी, जिला गाजियाबाद में स्थित, सीमाएं: पूर्वः राजेंद्र की भूमि, पश्चिमः रामनरेश का प्लॉट, उत्तरः 12 फुट रोड, दक्षिणः नीरज का प्लॉट। (सुरक्षित संपत्ति)
टिनांकः २२ ०७ २००६	कते हीसीबी बैंक जि

Dish TV India Ltd

DISH TV INDIA LIMITED

Regd. Office: Office No. 803, 8th Floor, DLH Park, S. V. Road, Goregaon (West), Mumbai-400 062 Corp. Office: FC-19, Film City, Sector 16 A, Noida - 201 301, U.P. E-mail: investor@dishd2h.com, CIN: L51909MH1988PLC287553. Website: www.dishd2h.com; Tel: 0120-5047000, Fax: 0120-4357078

NOTICE OF 37TH ANNUAL GENERAL MEETING AND PROCESS FOR E-MAIL REGISTERATION lotice is hereby given that the 37th Annual General Meeting ('AGM') of the members of Dish TV India Limited

('the Company') will be held on Thursday, August 14, 2025 at 11:30 A.M (IST) through Video Conferencing ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM') to transact the businesses as set forth in the Notice calling AGM

The AGM will be convened in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with the Rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations') read with all the relevant circulars issued by Ministry of Corporate Affairs ('MCA') and Securities and Exchange Board of India ('SEBI'). The Company has entered into an agreement with National Securities Depository Limited ('NSDL') for facilitating voting through electronic means, as the authorized agency. The facility of casting votes by a member using remote e-voting system as well as voting on the date of the AGM will be provided by NSDL. Detailed procedure for remote e-voting e-voting and participation in AGM through VC/OAVM by the Members has been provided in the Notice of the AGM which will be sent to you shortly.

In compliance with the applicable Circulars, the Notice of AGM along with Annual Report for the Financia Year 2024-25 will be emailed to all the Member of the Company whose email addresses are registered with the Company /RTA/ Depository Participants. The aforesaid documents will also be available on the website of the Company at www.dishd2h.com and Website of BSE Limited Ltd. ('BSE') at www.bseindia.com, National Stock Exchange of India Ltd. (NSE) at www.nseindia.com and NSDL at www.evoting.nsdl.com. In Compliance with Listing Regulations, the web-link, including the exact path, where complete details of the Annual Report are available will be sent to those member(s) who have not registered their email address(es) with Compan /RTA/ Denository Participants of the Company

The process for registration/updation of e-mail addresses is as under

(i) For shares in physical mode: Members holding shares in physical mode and who have not registered/updated their email addresses with the Company are requested to register/update their email addresses by submitting Form ISR-1 duly filled and signed along with requisite documents to MUFG Intime India Private Limited (Formerly 'Link Intime India Private Limited'), Registrar and Share Transfer Agent at rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com.

i) For shares in electronic mode: Members are requested to register their email address, in respect of demat holdings with the respective Depository Participant (DPs) by following the procedures prescribed by the DPs

Ranjit Singh Company Secretary & Compliance Officer Date: July 22, 2025 Membership No.: A15442

In fast or fragile markets, insight brings perspective.

Decode market moves with sharp, fast, expert analysis every day with Stocks in the News in Business Standard.

To book your copy, SMS reachbs to **57575** or email order@bsmail.in

Business Standard Insight Out

ई-प्रोक्योरमैन्ट नोटिस ई-निविदा सचना संख्या- 05(1-08)/CFP/2025-26, Date - 22/07/2025 पशु आहार निर्माणशाला रूद्रपुर (उधमसिंहनगर) के निम्नलिखित कार्यों के लिये अनुभवी, प्रतिष्ठित व वित्तीय रूप से सक्षम निर्माताओं / फर्मों / आपूर्तिकर्ताओं से निम्नानुसार ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा जमा निविदा खुलने विवरण की तिथि करने की अन्तिम तिथि व समय व समय अल्पकालिक ई—निविदा 01 भूसा (गेंहूँ का भूसा) आपूर्ति कार्य 02 एम०ओ०सी० (सरसों खल) 03 जॉब वर्क के माध्यम से काम्पैक्ट फीड दिनांक दिनांक ब्लाक भूसा भेली पैकिंग का कार्य। 01.08.2025 02.08.2025 काम्पैक्ट फीड ब्लाक (राहत दुधारू सायं 05.00 को पर्वाहन एवं प्लेन भूसा भेली) के कार्यों हेत् बजे तक। 11.00 बजे। उत्पादन अनुबंध 05 पशु-पक्षी आहार के कार्यों हेतु उत्पादन अनुबंध ई-निविदा 01 डी०ओ०आर०बी० आपूर्ति दिनांक 02 राईस पालिश आपूर्ति 07.08.2025 08.08.2025 03 पी०पी० बैग नेचुरल (राहत व सायं 05.00 सायं 05.00 बजे तक। बजे तक। द्धारू) निविदा प्रपत्र का मूल्य, धरोहर धनराशि व समस्त निविदा दस्तावेज उत्तराखण्ड

सरकार की ई–निविदा पोर्टल <u>www.uktenders.gov.in</u> पर उपलब्ध है, तथा यही

से Download एवं Upload किये जा सकते हैं। निविदा में किसी भी प्रकार के संशोधन

सामान्य प्रबन्धक

पशु आहार निर्माणशाला, रूद्रपुर (ऊधमसिंह नगर)

की जानकारी हेतु समय—समय पर वेबसाईट का अद्यतन किया जाना आवश्यक है।



केईआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः डी-90, ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज-।, नई दिल्ली-110 020 फोन: 91-11-26818840/26818642, वेबसाइट: www.kei-ind.com, ई—मेल आईडी: cs@kei-ind.com (सीआईएन: L74899DL1992PLC051527)



30 जून 2025 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीदित वित्तीय परिणाम

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 के विनियम 47 के अनुसार

30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणाम ('वित्तीय परिणाम'') की समीक्षा ऑडिट समिति द्वारा की गई है और कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा मंगलवार, 22 जुलाई, 2025 को आयोजित उनकी संबंधित बैठकों में अनुमोदित किया गया है।

उक्त वित्तीय परिणाम सीमित समीक्षा रिपोर्ट के साथ कंपनी के वेबपेज https://www.kei-ind.com/investor-relations/financialperformance/quarterly-results/ और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों यानी <u>www.bseindia.com</u> और <u>www.nseindia.com</u> पर पोस्ट किए गए हैं और नीचे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके प्राप्त किया जा सकता है:



हस्ताक्षर करने का स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 22.07.2025

हस्ता./-(अनिल गुप्ता) चेयरमैन-सह-मैनेजिंग डायरेक्टर

डीआईएनः 00006422

कृते केईआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड

